

(ख) इस कारखाने की आवश्यकता पूरी करने के बाद जो कोक बच रहेगा उस का उपयोग कैसे किया जायगा; और

(ग) कोक भट्टी संयंत्र में कोक के उत्पादन में होने वाले उपोत्पादों से प्रति वर्ष कितनी धातु होने का अनुमान है ?

**The Minister of Production (Shri K. C. Reddy):** (a) The daily requirement is about 550 tons. The Coke Oven Plant is designed to produce 600 tons per day.

(b) Any excess coke available after keeping sufficient stocks for meeting emergencies will be sold.

(c) The income from the sale of by-products obtained in the manufacture of coke in the Coke Oven Plant is dependent on many factors, especially the demand for and the market price of the products which fluctuate from time to time. On a rough estimate, with full production in the Plant, it is expected that the Company will be able to market products worth Rs. 20 to 30 lakhs per year.

### दूसरी पंच-वर्षीय योजना

१४७. श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने दूसरी पंच-वर्षीय योजना के लिये सिंचाई तथा बिजली की योजनाओं के अतिरिक्त अपनी प्रस्थापनाएं भेज दी हैं;

(ख) यदि हां, तो वे क्या हैं;

(ग) जिलों के स्तर पर जो काम होंगे उन में उत्तर प्रदेश सरकार ने किन बातों पर धोर दिया है; और

(घ) सरकार इन कामों पर होने वाले व्यय के लिये अनुदानों तथा ऋणों के रूप में कितना धन देगी ?

**The Deputy Minister of Planning (Shri S. N. Mishra):** (a) No, Sir.

(b) to (d). Do not arise.

### FERTILISERS

**148. Pandit Munishwar Datt Upadhyay:** Will the Minister of Production be pleased to state:

(a) the estimated annual consumption of fertilisers in the coming years; and

(b) the quantity expected to be produced by the factories proposed to be set up in the future?

**The Minister of Production (Shri K. C. Reddy):** (a) A statement containing the information is laid on the Table of the House. [See Appendix I, annexure No. 49.]

(b) The proposal is to set up additional manufacturing capacity for nitrogenous fertilisers which will give each year fertilisers of nitrogen content 1.7 lakh tons (equivalent to about 8 lakh tons of ammonium sulphate). At a subsequent stage this will have to be increased to 2.5 lakh tons of nitrogen per annum.

### DRUGS AND PHARMACEUTICALS

**149. Shri V. P. Nayar:** Will the Minister of Commerce and Industry be pleased to refer to para. 23(2) at page 196 of the Progress Report on the Five Year Plan for 1953-54 and state:

(a) the names of firms recommended by the Licencing Committee for the production of (i) B.H.C. and Lindane, (ii) Penicillin, (iii) Streptomycin, and (iv) Yeast Synthetic drugs with Antidysentric and cardiac stimulant properties;

(b) what is the role of foreign capital and foreign collaboration in each of these schemes; and

(c) how many of these products will be made in India from basic raw materials of Indian origin and how many from nearly finished raw-materials?